



वेलिंग्टन न्यूजीलैंड क्रिकेट आज मैच फिक्सिंग के आरोपों से घरि गया जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व हरफनमौला क्रिस केरन्स समेत तीन क्रिकेटर फिक्सिंग मामले में आईसीसी जांच के दायरे में हैं

‘न्यूजीलैंड हेराल्ड’ की करपोरट के अनुसार स्कय टीवी के कमेंटेटर केरन्स, तेज गेंदबाज डेरलि टफी और बल्लेबाज लू वसिंट इन तीन खिलाड़ियों में शामिल हैं

आईसीसी या न्यूजीलैंड क्रिकेट ने खिलाड़ियों के नामों की पुष्टि नहीं की है लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने स्वीकार किया है कि जांच चल रही है

आईसीसी ने कवजिज्पत्त में कहा, “आईसीसी इसकी पुष्टि करती है कि पछिले कुछ महीने से सदस्य देशों की घरेलू भ्रष्टाचार नरोधकईकइयों के साथ मलिक इन मसलों की जांच कर रही है”

इसने कहा, “चूंकि अभी जांच चल रही है और किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है तो आईसीसी या न्यूजीलैंड क्रिकेट आगे टपिपणी नहीं कर सकते”

स्कय टीवी की प्रवक्ता क्रिस्टी वे ने कहा कि केरन्स अब चैनल के लिए कमेंट्री नहीं कर रहे हैं

उन्होंने ‘न्यूजीलैंड हेराल्ड’ से कहा, “केरन्स अब मौजूदा टेस्ट मैच की कमेंट्री नहीं करेंगे और आक्लैंड जाकर परिवार के साथ समय बतियांगे। स्कय आने वाले समय में उनसे बात करेगा”

अखबार ने पहले कहा था कि आईसीसी की भ्रष्टाचार नरोधक और सुरक्षा ईकई के सदस्य पछिले चार महीने से देश में हैं और न्यूजीलैंड के क्रिकेटियों के ‘कसे अधकिदेश में’ फिक्सिंग में लपित होने की जांच कर रहे हैं

न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख डेविड व्हाइट ने पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले कहा कि वे इन आरोपों से सतर्क और हैरान हैं ।

उन्होंने कहा , “ न्यूजीलैंड क्रिकेट को इल्म था कि आईसीसी कई महीने से न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर्स की कुछ गतिविधियों की जांच कर रही है । कोई मौजूदा खिलाड़ी जांच के दायरे में नहीं है और न्यूजीलैंड में हुए किसी मैच की जांच नहीं हो रही है । ”

वसिंट ने । कबयान जारी करके इसकी पुष्टि की है कि उनकी भूमिका की जांच हो रही है ।

उन्होंने कहा , “ मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई की जांच में पूरा सहयोग कर रहा है । जांच के कई नियम और शर्तें हैं जिसके तहत मैं सार्वजनिक तौर पर आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा । ”

सर्कि क्रिकेट ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड का राजनीतिक तबका भी इस खबर से हैरान रह गया है । प्रधानमंत्री जान की ने कहा कि यदि न्यूजीलैंड के तीन पूर्व क्रिकेटर्स पर फर्किंग के आरोप सही पाए गए तो यह काफी गंभीर मामला होगा ।

उन्होंने कहा , “ न्यूजीलैंड खेल और व्यवसाय दोनों मामलों में काफी ईमानदार रहा है लहाजा यदि आरोप सही पाये गए तो काफी चिंता का विषय होगा । ”

न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स । सोसाई शन के प्रमुख हीथ मल्लिस ने इसे खेल के लिए दुखद दिन बताया ।

(भाषा)